



कार्यभार छोड़ने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना संख्या 120/UHC/Admin.A/2011 दिनांक 26 अप्रैल, 2011 के अनुपालन में मेरे द्वारा प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पद का कार्यभार आज दिनांक 02 मई, 2011 के अपरान्ह में छोड़ा गया।


(राम सिंह)
अवमुक्त अधिकारी


प्रतिहस्ताक्षरित


(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या ¹⁹⁹ /xxxvi(3)/2011/वि० एवं स०का०/2011: देहरादून, दि० 02 मई, 11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, माजरा देहरादून।
- 2- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 6- सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 7- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव।
- 8- निजी सचिव, मा० विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री जी।
- 9- निदेशक, लेखा व हकदारी, उत्तराखण्ड लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 10- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
- 11- बरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 12- एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 13- इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 14- विभागीय आदेश पुस्तिका।


(आर०पी०फुलोरिया)
संयुक्त सचिव।